

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2015 (फाल्गुन 9, 1936)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2015 (PHALGUNA 9, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली—110004, दिनांक 6 फरवरी 2015

सं. ए-33011/14/08—स्थापना— राष्ट्रपति, श्रीमती अनिता बिमल, उप महाप्रबंधक (होटल संचालन) भारतीय पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, जो हैदराबाद हाउस में महाप्रबंधक के रूप में तैनात थीं, को 04 फरवरी, 2013 से, राष्ट्रपति की कार्यावधि तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के अतिरिक्त गृह नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (स्थापना)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2015

सं. ए-12025 (i)/1/2007—प्रशा.—I(वि.वि)—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) श्रीमती वीना कोठावले को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर रुपये 37,400—67,000/— के वेतन बैंड-4 और रुपये 8,700/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 29 जनवरी, 2015 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती वीना कोटावले को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. आई-14011/23/2014-आईपीएस-1 (I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.01.2015 को चयन समिति की दिनांक 16.12.2014 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2013 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में कुल 13 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1. @*	सुनील कुमार हलधर	02.09.1958
2. #	मृणाल मजूमदार	14.03.1969
3. *	जयन्त मुखर्जी	03.12.1972
4.	तरुण हलदर	03.06.1978
5.	तथागत बासु	10.09.1977
6.	सुभांकर भट्टाचार्या	05.08.1977
7.	देबासीष धर	20.04.1976
8.	अमिताभ मैती	29.04.1973

@ क्रम संख्या 1 में दिए गए नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम 3 के प्रथम उपबन्ध के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

* क्रम संख्या 1 एवं 3 में दिये गये नामों को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान एवं राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

क्रम संख्या 2 में दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के अध्यक्षीन अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/23/2014-आईपीएस-1 (II)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची 2013

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	तरुण हलदर	03.06.1978
2.	तथागत बासु	10.09.1977
3.	सुभांकर भट्टाचार्या	05.08.1977
4.	देबासीष धर	20.04.1976
5.	अमिताभ मैती	29.04.1973

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली—1, दिनांक 15 जनवरी 2015

सं. 14034 / 1 / 2014—राभा (प्रशि.)—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री दिनेश चंद्र, सहायक निदेशक (भाषा) को हिंदी शिक्षण योजना में उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) के पद पर वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600—39,100/- + 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन में, पदोन्नति पर दिनांक 02 दिसम्बर 2014 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

हरिन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशि.)

सं. 14034 / 1 / 2014—राभा (प्रशि.)—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री भूपिन्दर सिंह, सहायक निदेशक (भाषा) को हिंदी शिक्षण योजना में उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) के पद पर वेतनमान पीबी-3 रुपये 15,600—39,100/- + 6,600/- रुपये ग्रेड वेतन में, पदोन्नति पर दिनांक 01 दिसम्बर 2014 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

हरिन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशि.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2015

सं.14015/38/2014-अ.भा.से.(I)-क—माननीय कैट के मद्रास पीठ के ओ.ए.सं. 310/00065/2014 में दिनांक12.08.2014 के आदेश, दिनांक 17.10.2014 द्वारा यथा संशोधित के अनुपालन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से चयन सूची वर्ष 2012 के लिए उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत गठित भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत गठित समीक्षा समिति की दिनांक 17.12.2014 की सिफारिशों तथा विनियम 7(2) के तहत यूपीएससी द्वारा 16.01.2014 को अनुमोदित की गई तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित करते हैं :-

2012 की चयन सूची

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि	2012 की चयन सूची में स्थिति, दिनांक 8.11.2013 को तैयार
श्रीमती एम. आशिया मरियम	09.05.1975	अधिकारी का नाम क्रम सं. 2क पर श्री एस. सुरेश कुमार से नीचे एवं श्री आर. कन्नन (अ.जा.) से ऊपर जोड़ा गया है।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं.14015/38/2014-अ.भा.से.(I)-ख—माननीय कैट के मद्रास पीठ के ओ.ए.सं. 310/00065/2014 में दिनांक12.08.2014 के आदेश, दिनांक 17.10.2014 द्वारा संशोधित के अनुपालन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, प्रवर सूची, 2012 के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए तमिलनाडु राज्य सिविल सेवा की सदस्य श्रीमती एम. आशिया

मरियम को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत तमिलनाडु संवर्ग आबंटित करते हैं।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं.14015/28/2014-अ.भा.से.(I)-क. —राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष, 2013 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त असम-मेघालय (मेघालय खंड) संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को तैयार और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 21.01.2015 को अनुमोदित की गई मेघालय राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं:-

वर्ष 2013 की प्रवर सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 तक के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के प्रति)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	हिमालयन मुक्तन शांगपलिंग (अ.ज.जा.)	13.08.1962
2.	हबर्ट बी. मराक (अ.ज.जा.)	18.12.1960

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं.14015/28/2014-अ.भा.से.(I)-ख. —राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष, 2013 की प्रवर सूची के लिए मेघालय के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के प्रति भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग आबंटित करते हैं :-

वर्ष 2013 की प्रवर सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 तक के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के प्रति)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	हिमालयन मुक्तन शांगपलिंग (अ.ज.जा.)
2.	हबर्ट बी. मराक (अ.ज.जा.)

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं.14015/4/2014-अ.भा.से.(I)-क. —भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग में पदोन्नति कोटा की

रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत 01.12.2014 को तैयार की गई तथा विनियम 7(1) के अंतर्गत 19.01.2015 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली बिहार के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2014 की चयन सूची (1.1.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म-तिथि
1.	उदय कुमार सिंह	13.08.1960
2.	बैद्य नाथ यादव	05.02.1965

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं.14015/4/2014-अ.भा.से.(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष, 2014 की चयन सूची हेतु उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के लिए बिहार के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें बिहार संवर्ग आबंटित करते हैं:&&

2014 की चयन सूची (1.1.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)
1.	उदय कुमार सिंह
2.	बैद्य नाथ यादव

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14015/12/2014-अ.भा.से. (I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2014 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 01.12.2014 को तैयार और विनियम 7(1) के अंतर्गत दिनांक 16.01.2015 को अनुमोदित की गई केरल के गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :-

2014 की प्रवर सूची (01-01-2013 से 31.12.2013 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)	जन्म तिथि
1.	यू.वी. जोस	30.05.1961
2.	आर. गिरिजा	10.02.1962

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14015/12/2014-अ.भा.से. (I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती)

नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2014 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए केरल के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत केरल संवर्ग आबंटित करते हैं :&&

2014 की प्रवर सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री)
1.	यू.वी. जोस
2.	आर. गिरिजा

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2015

सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आबंटित महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से स्थायी करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/श्रीमती)	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	श्री के. वी. कुरुन्दकर	2002	19.01.2013
2	श्री एस. वी. देशपाण्डे	2002	19.01.2013

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2015

सं. ए. 12011/18/2005-प्रशा. II—राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 29.12.2014 और 07.01.2015 के का.जा.सं. ए-12025/2/2013-सीएस के अनुसरण में, निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों/सहायकों को रुपये 9300-34800 के वेतन बैंड-2 + रुपये 4800 (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2012 और 2013 के परिणाम के आधार पर प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	प्रवीण शुक्ल	2012	29.12.2014 (पूर्वाह्न)
2.	अविनाश कुमार	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
3.	आलोक निगम	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
4.	साधना सिंघल	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
5.	पंकज कुमार अवस्थी	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
6.	अमित कुमार	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
7.	सोहन सिंह बिष्ट	2012	26.12.2014 (अपराह्न)
8.	बिपिन कुमार	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
9.	निशा	2013	26.12.2014 (अपराह्न)
10.	संजय कुमार पंडित	2013	31.12.2014 (पूर्वाह्न)

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधीन होगी:-

- (i) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री राजीव आर. और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 6468/2014।
- (ii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री एम. आर. मीणा और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 5793/2014।
- (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री शांति लाल बौरासी और अन्य दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 5080/2014।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

सं. ए-19012/194/2014-स्थापना-राष्ट्रपति, आईईएस संवर्ग के श्री राघव भट्ट को पे-बैंड 3, 15,600/- रुपये + 5,400/- रुपये ग्रेड पे में 08.12.2014 के पूर्वाह्न से और अगले आदेश होने तक, वित्तीय सेवाएं विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

सं. 51/2014 (ए-19011/34/2014-ई-1)-राष्ट्रपति द्वारा श्री संतोष कुमार सारंगी, आईईएस (उड़ीसा : 94) को वेतन बैंड 37,400-67,000/- (पीबी-4) + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 पूर्वाह्न से उनकी पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पदावधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 25.08.2019 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जी. बी. उपाध्याय, उप सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. 1/2015 (ए-19011/10/2010-ई-1)-राष्ट्रपति द्वारा श्री जी. रामचन्द्रण को वेतनमान 37,400-67,000/- रुपये + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 से अगले आदेशों तक के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, में सलाहकार (लागत) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जी. बी. उपाध्याय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ए-32014/3/2013-संवर्ग-राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2014-सी.एस.-I (यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री आर. गोपाल कृष्ण को पूर्ति प्रभाग में 01 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. श्री आर. गोपाल कृष्ण की तदर्थ प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के अध्याधीन है।

संजय शंकर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2015

सं. ए-32013/2/2014-संवर्ग-संयुक्त सचिव स्तर पद पर नियुक्ति के लिए नामित होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 2015 के आदेश सं. 21/2/2015-सी.एस.-I (डी) के अनुसरण में पूर्ति

प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निदेशक श्री ए. के. सिंह को दिनांक 29.01.2015 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के नाते नियुक्त करते हैं।

अजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2015

सं. ए-32014/1/2015-संवर्ग—अधिवर्षिता की आयु होने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निम्नलिखित निजी सचिव अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी :—

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री) एवं पदनाम	जन्म तिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1.	शकुन्तला देवी गुप्ता (निजी सचिव)	05.01.1955	31.01.2015 (अपराह्न)

अजय कुमार, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2015

सं. ए-32011/12/2014-एच.आर.-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2014 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2014-सीएस-II (ए) के अनुसरण में श्री ईश्वर चंद्र (सेवा निवृत्त) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 29.12.2014 (अपराह्न) से 4,800/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में वर्ष 2013 की चयन सूची में नियमित निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-32011/12/2014-एच.आर.-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2014 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2014-सीएस-II (ए) के अनुसरण में श्रीमती मंजीत सैनी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 30.12.2014 (पूर्वाह्न) से 4,800/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में वर्ष 2013 की चयन सूची में नियमित निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-32011/12/2014-एच.आर.-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2014 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2014-सीएस-II (ए) के अनुसरण में श्रीमती अनीता को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 31.12.2014 (पूर्वाह्न) से 4,800/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में वर्ष 2013 की चयन सूची में नियमित निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-32011/12/2014-एच.आर.-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2014 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2014-सीएस-II (ए) के अनुसरण में श्री राकेश कुमार को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 29.12.2014 (अपराह्न) से 4,800/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में वर्ष 2013 की चयन सूची में नियमित निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. ए-32011/12/2014-एच.आर.-II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2014 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2014-सीएस-II (ए) के अनुसरण में श्रीमती रेणु गंगड़ को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में 31.12.2014 (पूर्वाह्न) से 4,800/- रुपये के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में वर्ष 2013 की चयन सूची में नियमित निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 जनवरी 2015

सं. ए-19018/02/2008-स्थापना-—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफसीएस) के अंतर्गत यथास्थाने आधार पर श्री एन. के. गुप्ता को 23 जनवरी, 2015 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (पीबी-4) में रुपये 37,400—67,000/- + रुपये 8,700/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. ए-12025/211/2007-सीएचएस 1-—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुशील कुमार विमल को दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600—39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. सुशील कुमार विमल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

सं. ए-19011/2/2012-स्था. II-—अपने मूल कैडर में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्री राज प्रताप सिंह, भा.प्र. से. (उ.प्र. 83), संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय को 22 दिसम्बर, 2014 (अपराह्न) से 'विस्तारित उपशमन अवधि' की शर्त के अधिरोपण सहित आयुष मंत्रालय में अपने कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

चंद्रशेखर, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 फरवरी 2015

सं. ए-32014/2/2014-स्था.-I-—राष्ट्रपति संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2012-2013 के परिणाम के आधार पर, श्री अमित राजन (चयन सूची वर्ष 2013 रैंक संख्या 116) को 26 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री अमित राजन की नियुक्ति निम्नोक्त न्यायालयीय मामलों के परिणाम तथा इनसे जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन होगी :—

- (i) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री शान्ती लाल बौरासी तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई डब्ल्यूपी(सी) सं. 5080/2014
- (ii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री एम. आर. मीना तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई डब्ल्यूपी(सी) सं. 5793/2014
- (iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री राजीव आर. तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई डब्ल्यूपी(सी) सं. 6468/2014

एन. एस. वेंकटेश्वरन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2015

सं. ईआरबी-1/2011/2/49—राष्ट्रपति जी, श्री कुन्दन सिन्हा, एचएजी/आईआरटीएस, सलाहकार (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रुपये 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 04.02.2015 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2014/2/75—राष्ट्रपति जी, श्री अजय शुक्ला, एचएजी/आईआरटीएस, सलाहकार (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रुपये 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 04.02.2015 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2012/2/20—राष्ट्रपति जी, श्री वेद पाल, एसएजी/आईआरएसईई को 06.02.2015 के अपराह्न से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार, बिजली इंजीनियरी (आरएस), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 फरवरी 2015

सं. 7/600/2009—प्रशा.1—राष्ट्रपति द्वारा श्री रजनीश कुमार को, वर्ष 2012 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने के उपरांत, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के अपराह्न से रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड में रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन के साथ नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रजनीश कुमार, अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/7/2013—सीएस.-I (एस) में उल्लिखित नियमों व शर्तों से अनुशासित होगी।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 6th February 2015

No. A-33011/14/08-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Anita Bimal, Deputy General Manager (HO), India Tourism Development Corporation Ltd. posted as General Manager, Hyderabad House as Additional Comptroller. President's Household, President's Secretariat with effect from 04 February 2013 (A/N) for a period co-terminus with the tenure of the President or until further orders, whichever is earlier.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 5th February 2015

No. A.12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Ms. Veena Kothavale, Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade- II of Indian Legal Service) in the Pay Band-4 of Rs.37400-67000/- plus Grade Pay of Rs.8700/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 29th January, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on Ms. Veena Kothavale any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the ad hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2015

No. I-14011/23/2014-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 28.01.2015 approved the Select List of the year 2013, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 16.12.2014 containing the names of the following State Police Service officers of West Bengal, towards filling up 13 substantive vacancies in the West Bengal Cadre of Indian Police Service:-

Select List 2013

Sl.No.	Name of the Officer (Smt./Shri)	Date of Birth
1.@*	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
2.#	Mrinal Majumder	14.03.1969
3.*	Jayanta Mukherjee	03.12.1972
4.	Tarun Halder	03.06.1978
5.	Tathagata Basu	10.09.1977
6.	Subhankar Bhattacharya	05.08.1977
7.	Debasish Dhar	20.04.1976
8.	Amitabha Maiti	29.04.1973

@The name at Sl. No. 1 has been included in terms of the 1st Proviso to Regulation 5(3) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

*The names at Sl. Nos. 1 and 3 have been included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings against them and grant of Integrity Certificate by the State Government.

#The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/23/2014-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the West Bengal Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2013

Sl.No.	Name of the Officer (Smt./Shri)	Date of Birth
1	Tarun Halder	03.06.1978
2	Tathagata Basu	10.09.1977
3	Subhankar Bhattacharya	05.08.1977
4	Debasish Dhar	20.04.1976
5	Amitabha Maiti	29.04.1973

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 15th January 2015

No. 14034/1/2014-OL(Trg.)—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, is pleased to appoint Shri Dinesh Chander, Assistant Director (Language) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in the Pay Scale of PB-3, ₹15600-39100 + Grade Pay ₹ 6600) on promotion, with effect from the forenoon of 2nd December, 2014.

HARINDER KUMAR, Dir. (Training)

No. 14034/1/2014-OL(Trg.)—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, is pleased to appoint Shri Bhupinder Singh, Assistant Director (Language) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) in the Pay Scale of PB-3, ₹15600-39100 + Grade Pay ₹ 6600) on promotion, with effect from the afternoon of 1st December, 2014.

HARINDER KUMAR, Dir. (Training)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd January 2015

No. 14015/38/2014-AIS (I)-A—In pursuance of the order dated 12.08.2014 as modified by order dated 17.10.2014 of the Hon'ble CAT, Madras Bench in OA No. 310/00065/2014 and, in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to modify the select list of 2012 as per the recommendations dated 17.12.2014 of the Review Selection Committee constituted under Regulation 5(5), which were approved by UPSC on 16.01.2014 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Tamil Nadu Cadre of IAS under State Civil Service category, determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government, as under:

Select List of 2012

Name of the officer	Date of Birth	Position in the Select List of 2012 as prepared on 8.11.2013
Smt. M. Asia Mariam	09.05.1975	The name of the officer has been interpolated at S. No. 2A below Shri S. Suresh Kumar and above Shri R. Kanan (SC)

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/38/2014-AIS (I)-B—In pursuance of the order dated 12.08.2014 as modified by order dated 17.10.2014 of the Hon'ble CAT, Madras Bench in OA No. 310/00065/2014 and, in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Smt. M. Asia Mariam of the State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2012, on probation until further orders and to allocate her to the Tamil Nadu Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/28/2014-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Meghalaya containing the following names prepared on 8th December, 2014 under Regulation 5(5) and approved on 21.01.2015, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in the cadre of Joint Assam-Meghalaya (Meghalaya Segment) of IAS, under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2013:-

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 01.01.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Himalayan Muktan Shangpliang (ST)	13.08.1962
2.	Hubert B. Marak (ST)	18.12.1960

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/28/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2013 on probation until further orders and to allocate them to the Joint Assam-Meghalaya Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 01.01.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer
1.	Himalayan Muktan Shangpliang (ST)
2.	Hubert B. Marak (ST)

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/4/2014-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Bihar containing the following names prepared on 1st December, 2014 under Regulation 5 and approved on 19.01.2015, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Bihar cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014:-

Select List of 2014 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Uday Kumar Singh	13.08.1960
2	Baidya Nath Yadav	05.02.1965

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/4/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Bihar to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014, on probation until further orders and to allocate them to the Bihar Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2014(Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1	Uday Kumar Singh
2	Baidya Nath Yadav

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/12/2014-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officers of Kerala containing the following names prepared on 1st December, 2014 under Regulation 5 and approved on 16.01.2015, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Kerala cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014:-

Select List of 2014 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	U. V. Jose	30.05.1961
2	R. Girija	10.02.1962

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/12/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2014, on probation until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2014 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1	U. V. Jose
2	R. Girija

NITIN GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 9th February 2015

No.14013/06/2013-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service

borne on the State Cadre of Maharashtra in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against him:

Sl. No.	Name of the Officer S/Sh/Smt.	Batch	Due Date of Confirmation
1	Shri K.V.Kurundkar	2002	19.01.2013
2	Shri S.V.Deshpande	2002	19.01.2013

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 21st January 2015

No.A-12011/18/2005-Admn.II—In pursuance of Department of Expenditure (CAS) O.M.No. A-12025/2/2013-CAS dated 29.12.2014 and 07.01.2015, the President is pleased to appoint the following regular Assistants/ Personal Assistants, as Section Officer in the pay scale of ₹ 9300-34,800 + ₹ 4,800/- (Grade pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2012 and 2013 with effect from the date mentioned against each.:-

S. No.	Name (Shri/Smt./Ms)	S.L. Year	Date of Appointment
1.	Praveen Shukla	2012	29.12.2014 (FN)
2.	Avinash Kumar	2012	26.12.2014 (AN)
3.	Alok Nigam	2012	26.12.2014 (AN)
4.	Sadhna Singhal	2012	26.12.2014 (AN)
5.	Pankaj Kumar Awasthi	2012	26.12.2014 (AN)
6.	Amit Kumar	2012	26.12.2014 (AN)
7.	Sohan Singh Bisht	2012	26.12.2014 (AN)
8.	Bipin Kumar	2013	26.12.2014 (AN)
9.	Nisha	2013	26.12.2014 (AN)
10.	Sanjay Kumar Pandita	2013	31.12.2014 (FN)

2. The appointment of above mentioned officers to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the following Court Cases:-

- (i) WP (C) No. 6468/2014 filed by UPSC Vs. Shri Rajeev R & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- (ii) WP (C) No. 5793/2014 filed by UPSC Vs. Shri M. R. Meena & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.
- (iii) WP (C) No. 5080/2014 filed by UPSC Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 10th December 2014

No. A-19012/194/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Raghav Bhatt of the IES Cadre as Assistant Director in the Department of Financial Services in the Pay Band-3:Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from the forenoon of 08.12.2014 and until further orders.

MANISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 19th December 2014

No. 51/2014(A/19011/34/2014-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Sarangi, IAS (OR: 94) as Joint Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, in the Pay Band of Rs. 37,400-67000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10000/- with effect from the forenoon of 18th December, 2014, for the balance period of his five year deputation tenure under the Central Staffing Scheme, i.e. upto 25.08.2019 or until further order, whichever is earlier.

G. B. UPADHYAY, Dy. Secy.

The 8th January 2015

No. 1/2015(A/19011/10/2010-E.I)—The President is pleased to appoint Shri G. Ramachandran as Adviser (Cost) in the Pay Scale of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10000/- in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry with effect from the 29th December, 2014 and until further orders.

G. B. UPADHYAY, Dy. Secy.

New Delhi, the 2nd January 2015

No.A-32014/3/2013-Cadre—The President is pleased to appoint Shri R. Gopala Krishna, Section Officer of CSS Cadre as Grade-I (Under Secretary) of CSS Cadre on ad-hoc basis in Supply Division with effect from the forenoon of 1st December, 2014, in pursuance of DOP&T's O.M. No.5/11/2014-CS.I(U) dated 20th November, 2014.

2. The ad-hoc promotion of Shri R. Gopala Krishna is subject to the terms & conditions mentioned in aforesaid O.M. of Department of Personnel & Training.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

New Delhi, the 5th February 2015

No.A-32013/2/2014-Cadre—Consequent upon his empanelment for appointment to JS level post, the President is pleased to appoint Sh. A.K. Singh, Director of CSS Cadre of Supply Division as Joint Secretary (in-situ) in Supply Division in SAG grade with effect from 29.01.2015(F/N) in pursuance of DOP&T's Order No.21/2/2015-CS.I(D) dated 28th January, 2015.

AJAY KUMAR, Under Secy.

The 6th February 2015

No. A-32014/1/2015-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Private Secretary of CSSS Cadre of Supply Division retired from Government Service with effect from the date mentioned against her name:

S.No.	Name(S/Shri) & Designation	DOB	Date of Superannuation
1	Shakuntla Devi Gupta, PS	05.01.1955	31.01.2015(A/N)

AJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 4th February 2015

No. A-32011/12/2014-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Ishwar Chander (Retd.) as regular Private Secretary in Select List of the Year 2013 in Pay Band-2 (9300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 29-12-2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 4/9/2014-CS.II(A) dated 29-12-2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-32011/12/2014-HR-II. The President is pleased to appoint Smt. Manjeet Saini as regular Private Secretary in Select List of the Year 2013 in Pay Band-2 (9300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 30-12-2014 (F/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 4/9/2014-CS.II(A) dated 29-12-2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-32011/12/2014-HR-II—The President is pleased to appoint Smt. Anita as regular Private Secretary in Select List of the Year 2013 in Pay Band-2 (9300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 31-12-2014 (F/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 4/9/2014-CS.II(A) dated 29-12-2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-32011/12/2014-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Rakesh Kumar as regular Private Secretary in Select List of the Year 2013 in Pay Band-2 (9300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 29-12-2014 (A/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 4/9/2014-CS.II(A) dated 29-12-2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. A-32011/12/2014-HR-II—The President is pleased to appoint Smt. Renu Gangarh as regular Private Secretary in Select List of the Year 2013 in Pay Band-2 (9300-34800/-) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 31-12-2014 (F/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 4/9/2014-CS.II(A) dated 29-12-2014.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi – 110016, the 29th January 2015

No.A-19018/02/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri N.K. Gupta, as Scientist 'E' in the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band-4 (PB-4), Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700/- on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of the 23rd January, 2015 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 31st December 2014

No.A.12025/211/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sushil Kumar Vimal in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 03rd December, 2007 until further orders. Dr. Sushil Kumar Vimal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF AYUSH

New Delhi-110023, the 22nd December 2014

No. A.19011/2/2012-E.II—Consequent upon his premature repatriation to his parent cadre Sh. Raj Pratap Singh, IAS (UP:83), Joint Secretary, Ministry of AYUSH stands relieved of his duties in the Ministry of AYUSH w.e.f. the afternoon of 22nd December, 2014 alongwith imposition of extended cooling off condition.

ANJAN BISWAS, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 4th February 2015

No. A-32014/2/2014 -Estt.I On the basis of results of the Combined Limited Departmental Examination, 2012-2013, the President is pleased to appoint Shri Amit Rajan (Select List Year 2013/ Rank No.116), as Section Officer of CSS in the Ministry of Social Justice & Empowerment with effect from the forenoon of 26th December, 2014 and until further orders.

2. The appointment of Shri Amit Rajan, to the Section Officers' Grade is subject to the outcome of the following court cases and also as per any other order by any Competent Court in any of the connected matters:

- i. WP(C) No. 5080/2014 filed by UPSC Vs. Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- ii. WP(C) No. 5793/2014 filed by UPSC Vs. Shri M.R. Meena & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- iii. WP(C) No. 6468/2014 filed by UPSC Vs. Shri Rajeev R & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.

N. S. VENKATESHWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th February 2015

No. ERB-I/2011/2/49—The President is pleased to appoint Shri Kundan Sinha, HAG/IRTS, Adviser (Traffic Transportation), Railway Board as Additional Member (Traffic Transportation), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500-80,000 with effect from forenoon of 04.02.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2014/2/75—The President is pleased to appoint Shri Ajay Shukla, HAG/IRTS, Adviser(Commercial), Railway Board as Additional Member (Commercial), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500-80,000 with effect from forenoon of 04.02.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2012/2/20—The President is pleased to appoint Shri Ved Pal, SAG/IRSEE as Adviser, Electrical Engineering(RS), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 06.02.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 10th February 2015

No. 7/600/2009-Admn.I—The President is pleased to appoint Sh. Rajnish Kumar to the post of Section Officer in the Pay Band of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/- on regular basis w.e.f. the afternoon of 26.12.2014 on his name being included in the Select List for the year 2012.

2. The appointment of Sh. Rajnish Kumar, Section Officer will be governed by the terms and conditions stipulated in the Department of Personnel & Training O.M. No. 6/7/2013-CS.I(S) dated 26th December, 2014.

SURESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in